

एपीजे स्वर्ण ग्लोबल स्कूल  
प्रथम सत्रीय परीक्षा(20-21)

कक्षा -8

विषय -हिन्दी

समय -1घंटा 10 मिनट

कुल अंक -25

नोट : सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं ।

प्रश्न -1 प्रस्तुत कविता के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिये -

(2+2+1)

अभी न होगा मेरा अन्त

अभी-अभी ही तो आया है

मेरे वन में मृदुल वसन्त-

अभी न होगा मेरा अन्त

हरे-हरे ये पात,

डालियाँ, कलियाँ कोमल गात!

मैं ही अपना स्वप्न-मृदुल-कर

फेरूँगा निद्रित कलियों पर

जगा एक प्रत्यूष मनोहर

(क) कवि के अनुसार उसका अंत अभी क्यों नहीं होगा ?

(ख) कवि सोई हुई कलियों को जगाने के माध्यम से क्या कहना चाहता है ?

(ग) कवि का नाम लिखिए ।

प्रश्न -2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक -एक वाक्य में दीजिए -

(1\*3=3)

(क)- लाख की चूड़ियाँ पाठ में लेखक अपने मामा के गाँवों चाव से क्यों जाता था ?

(ख ) क्या निराश हुआ जाए पाठ में लेखक का मन क्यों बैठ जाता है ?

(ग )-कामचोर कहानी में अम्मा ने बच्चों को क्या चुनौती दी ?

प्रश्न -3 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में दीजिए -(कोई दो प्रश्न)

(3\*2=6)

(क) कामचोर कहानी से आज के बच्चों को क्या सीख लेनी चाहिए ?

(ख) क्या निराश हुआ जाए पाठ में लेखक ने दोषों के पर्दाफाश को बुरा कब कहा है ?

(ग) मशीनी युग आने से बदलू के जीवन में क्या परिवर्तन आए ?

प्रश्न -4 निम्नलिखित शब्दों में से कोई दो शब्दों के अर्थ लिखिए -

(2)

पैतृक, घमासान , मातम

प्रश्न -5 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30-40 शब्दों में दीजिए -

(2\*2=4)

(क)- शांति कहानी में श्यामा को किसी से भी बात करने में संकोच क्यों होता था ?

(ख)- नशा कहानी में ईश्वरी को किस बात का नशा हो गया था ?

प्रश्न -6 किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए -

(5)

जब मुझे जादुई कलम मिली -----

अथवा

मेरा देश प्रेम